

अध्याय - 8 | व्यावसायिक वित्त के स्रोत

QUIZ-01

1. स्थायी परिसंपत्तियाँ जैसे भूमि और मशीनरी खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त वित्तीय स्रोत कौन-सा है?
- A. व्यापारिक ऋण
B. अर्जित लाभ
C. स्थायी पूंजी
D. कार्यशील पूंजी (C)

व्याख्या: स्थायी पूंजी का उपयोग दीर्घकालिक परिसंपत्तियों की खरीद के लिए किया जाता है जैसे भूमि, भवन, मशीनरी आदि।

2. निम्न में से कौन-सा वित्तीय स्रोत व्यवसाय के नियंत्रण को प्रभावित नहीं करता और कर लाभ भी प्रदान करता है?
- A. इक्विटी शेयर
B. वरीयता शेयर
C. डिबेंचर
D. सार्वजनिक जमा (C)

व्याख्या: डिबेंचर पर ब्याज कर-कटौती योग्य होता है और इसके धारकों को मतदान का अधिकार नहीं होता, जिससे नियंत्रण नहीं प्रभावित होता।

3. कौन-सा वित्तीय साधन कंपनियों को अमेरिकी डॉलर में निधि एकत्र करने की अनुमति देता है और विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होता है?
- A. वाणिज्यिक पत्र
B. इक्विटी शेयर
C. ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (GDR)
D. इंडियन डिपॉजिटरी रसीद (IDR) (C)

व्याख्या: GDR विदेशी बाजारों में जारी होता है और विदेशी मुद्रा में निधियाँ एकत्र करने का माध्यम होता है।

4. निम्न में से कौन-सा आंतरिक स्रोत नहीं है?
- A. अर्जित लाभ
B. व्यापारिक ऋण
C. अधिशेष सूची की बिक्री
D. लाभ पुनर्निवेश (B)

व्याख्या: व्यापारिक ऋण आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त होता है, इसलिए यह बाह्य स्रोत है।

5. निम्न में से कौन-सा एक अल्पकालिक, बिना सुरक्षा वाला वचनपत्र होता है?
- A. वरीयता शेयर
B. डिबेंचर
C. वाणिज्यिक पत्र
D. सार्वजनिक जमा (C)

व्याख्या: वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक, बिना सुरक्षा वाला ऋण साधन है जो कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है।

6. निम्न में से कौन-सा वित्तीय स्रोत संचालन की स्वतंत्रता को बढ़ाता है और उस पर ब्याज या लाभांश जैसी कोई लागत नहीं होती?
- A. व्यापारिक ऋण
B. पट्टा वित्तपोषण
C. अर्जित लाभ
D. वरीयता शेयर (C)

व्याख्या: अर्जित लाभ आंतरिक रूप से उत्पन्न होता है और इस पर कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती, जिससे व्यवसाय को अधिक स्वतंत्रता मिलती है।

7. वित्त के स्रोत के रूप में व्यापारिक ऋण की एक मुख्य सीमा क्या है?
- A. स्वामित्व की हानि
B. सीमित मात्रा में धन उपलब्ध
C. परिसंपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता
D. उपयोग में कोई लचीलापन नहीं (B)

व्याख्या: व्यापारिक ऋण सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है और यह आपूर्तिकर्ता की शर्तों पर निर्भर करता है।

8. कौन-से डिबेंचर केवल हस्तांतरण से स्थानांतरित किए जा सकते हैं और कंपनी के रजिस्टर में दर्ज नहीं होते?
- A. पंजीकृत डिबेंचर
B. सुरक्षित डिबेंचर
C. बियरर डिबेंचर
D. परिवर्तनीय डिबेंचर (C)

व्याख्या: बियरर डिबेंचर रजिस्ट्री के बिना ही सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं।

9. पट्टा वित्तपोषण का मुख्य लाभ किरायेदार (lessee) के लिए क्या है?
- A. परिसंपत्ति का स्वामित्व
B. निवेश पर निश्चित रिटर्न
C. कम पूंजी निवेश में परिसंपत्ति का उपयोग
D. शेष मूल्य पर लाभ (C)

व्याख्या: पट्टा वित्तपोषण में कम प्रारंभिक लागत पर परिसंपत्ति का उपयोग किया जा सकता है।

10. 'लाभ पुनर्निवेश' का क्या अर्थ है?
- A. भूमि और मशीनरी में निवेश करना
B. शेयरधारकों को लाभांश देना
C. भविष्य के उपयोग के लिए लाभ को बनाए रखना
D. वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेना (C)

व्याख्या: लाभ पुनर्निवेश का अर्थ है कंपनी के लाभ का एक हिस्सा बचाकर भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना।